

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 390] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 22 1982/वीण 1, 1904
No. 390] NEW DELHI, WEDNESDAY, DEC. 22, 1982/PAUSA 1, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि संलासय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1982

सा० का० नि० 771 (अ)/अ० ख० ईख :—केन्द्रांग सरकार, ईख (नियंत्रण)
आदेश, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, और उनके
उपखण्ड (1) में वर्णित विभिन्न नयों का ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्राधिकारियों,
निकायों और संगमों से परामर्श करने के पश्चात् जिनमें परामर्श करना यह
आवश्यक समझती है और ईख की आधारित न्यूनतम कीमत 13.00 रुपये

क्विंटल के आधार पर जो 8.5 प्रतिशत या उनसे कम वसूली से महवद्ध है, जिसके साथ 8.5 प्रतिशत से अधिक की प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वसूली की वृद्धि पर 15.2941 पैसा प्रति क्विंटल का प्रीमियम है, इससे उगावद्ध अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमत को उस न्यूनतम कीमत के रूप में नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्वात पात प्रक्रिया वाले ईख के कारखाने के स्वामियों द्वारा या उनके अधिकर्ताओं द्वारा उनके कारखाना द्वार पर या किसी अन्य केन्द्र पर 30 मितम्बर, 1982 को समाप्त होने वाले ईख वर्ष 1981-82 के लिए परिदत्त ईख के लिए संदेय होंगी किन्तु ऐसा उक्त आदेश के खण्ड 3-क के अधीन उसके लिए संदेय रिबेट के अधीन रहने हुए किया जाएगा।

अनुसूची

क्र० सं०	कारखाने का नाम	ईख की रूपरेखा से प्रति क्विंटल न्यूनतम कीमत
1	2	3
1	कोवूर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, पोथीरेड्डीपलम पो० आ०, कोवूर तालुक, जिला नेल्लोर, आंध्र प्रदेश, पिन-524005	13.00

[संख्या 3-5/81-ए०पी०वाई० (डी०-II)]

ए० आर० बनर्जी, संयुक्त सचिव (चीनी)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 1982

G.S.R. 771(I)/Eas. Com. Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966, and having regard to the various factors mentioned in sub-clause (1) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, bodies and associations as are considered necessary by it to be consulted and on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs 13.00 per quintal linked to a recovery of 8.5 per cent or below with a premium of 15.2941 paise per quintal for every 0.1 per cent increase in recovery above 8.5 per cent, hereby, fixes the price specified in column (3) of the Schedule hereto annexed as the minimum price that shall be payable by the

owner of the vacuum pan process-sugar factory specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule or their agents for sugarcane delivered at the gate of the factory or any purchasing centre for the sugar year 1981-82, ending the 30th September, 1982, subject to the rebates payable, the order, under clause 3 A of the said order.

Sl. No.	Name of the factory	Minimum sugarcane price in rupees per quintal
(1)	(2)	(3)
1.	Kovur Co-op. Sugar Factory Ltd, Pothireddypalam P.O Kovur Taluk, Dt Nellore, Andhra Pradesh Pin-524005.	13 00

[No. 3-5/81-SPY (DII)]

N R. BANERJI, Jt. Secy, (Sugar)

